



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2007/पौष 25, 1928

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2007/PAUSA 25, 1928

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2007

का.आ. 43(अ).—भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2158(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 में, “श्री आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव (दिल्ली और भूमि)” के स्थान पर “श्री आर. के. सिन्हा, भूमि और विकास अधिकारी” प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. यू. 14011/50/2003-दिल्ली-II]

एस. के. चट्टोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th January, 2007

S.O. 43(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 2158(E) dated the 28th December, 2006, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2006, for “Shri R. K. Sinha, Joint Secretary (Delhi & Lands)” substitute “Shri R. K. Sinha, Land & Development Officer.”

[F.No.U. 14011/50/2003-Delhi-II]

S. K. CHATTOPADHYAY, Jt. Secy.